

प्रिय माता-पिता व देखभालकर्ताओं,

मुझे इस बात की खुशी है कि हम इस सप्ताह छात्रों की वापसी पर उनका स्वागत करने में सफल रहे। न केवल सीखने के लिए बल्कि हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी शिक्षा स्थान पर शिक्षा पाना महत्वपूर्ण है।

स्कूल वापस आने के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे वेब पेज [School arrangements - back to school \(COVID-19\) \(leicester.gov.uk\)](https://www.leicester.gov.uk/school-arrangements-back-to-school-covid-19/) पर जाएँ।

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हालांकि छात्रों के लिए स्कूल खुले हैं, फिर भी हमें राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। ये प्रतिबंध आपकी और आपके प्रियजनों की रक्षा करने और कोरोनावायरस के प्रसार को कम करने के लिए हैं।

- दरवाज़ों के अंदर के स्थानों में आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ मेलजोल की अनुमति नहीं है जो आप के साथ न रहता हो, इसमें जन्मदिन पार्टियां और प्ले डेट्स आदि शामिल हैं।
- दरवाज़ों के बाहर के स्थानों पर दूसरे घर के केवल एक अन्य व्यक्ति से ही आपको मिलने की अनुमति है

यह आपके हाथों को बार-बार धोने, जहां आवश्यक हो, चेहरे को ढंकने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह के अतिरिक्त है; हम सभी को जितना संभव हो घर पर रहना जारी रखना चाहिए।

सरकार की योजना और सांकेतिक तिथियों के संबंध में अधिक विवरण के लिए सरकार की वेबसाइट पर जाएं [COVID-19 Response - Spring 2021 - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk/covid-19-response-spring-2021)

कृपया याद रखें कि ये तिथियां तय नहीं हैं और यदि कोरोनावायरस की स्थिति नहीं बदलती या बिगड़ जाती है तो ये बदल सकती हैं।

अब तक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि यह हममें से किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है और हम सभी किसी तरह के सामान्य जीवन की वापसी चाहते हैं। यदि हम दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रखते हैं और थोड़ी ही देर तक और मिलना जुलना बंद रखते हैं, तो एक सामान्य गर्मी के मौसम की हमारी उम्मीदें वास्तविकता बन सकती हैं।

भवदीय

इवान ब्राउन

सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक, लीसेस्टर सिटी काउंसिल